

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली  
हौज खास, नई दिल्ली -110016  
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)  
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI  
Hauz Khas, New Delhi-110016  
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP04131F/

306313

Advertisement No.: IITD/IRD/186/2021

Dated: 28/10/2021

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	SAMOSA: Sensor-based Air Measurement Observatory for South Asia (RP04131F)	
Funding Agency	Silicon Valley Community Foundation USA	
Name of the Project Investigator	Prof. Sagnik Dey [email ID: sagnik@cas.iitd.ac.in]	
Deptt./Centre	Centre for Atmospheric Sciences	
Duration of the Project	Upto: 31/12/2022	
Post (s)	Consolidated Pay-slab / Fellowship	Qualifications
Principal Project Scientist (1)	Rs.56,000-60,000-64,000-69,000-74,000-79,000/- p.m. plus HRA @ 24%	Ph.D. with first class or M.Tech. Remote Sensing with six years experience in aerosol remote sensing and skill of data analytics
Jr. Project Assistant (Tech.) (1)	Rs.21,700-23,200-24,700-26,700-28,700-30,700/- p.m. plus HRA @ 24%	Graduation; experience in handling instruments/field measurements/data analysis is desirable and creating and maintain the website.

The post may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Sagnik Dey at email ID: sagnik@cas.iitd.ac.in OR by post to Prof. Sagnik Dey, room No. 322, Centre for Atmospheric Sciences, Block-VI, IIT Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016. The advertisement No. & post applied for must be mentioned on the left side of the application.

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. **Only short-listed candidates will be informed for online interview.** In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Sagnik Dey at email id: sagnik@cas.iitd.ac.in

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by email is 11/11/2021 by 5.00 p.m.**

सहायक कुलसचिव, आईआरडी

**वितरण**

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Sagnik Dey, PI, Centre for Atmospheric Sciences
- Copy to Chairperson, DRC/CRC
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing